

प्रेस नोट दिनांक-22.03.2023

(1). आज दिनांक 22.03.2023 को पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद चित्रकूट श्रीमती वृन्दा शुक्ला द्वारा पुलिस कार्यालय में आये हुये फरियादियों की शिकायतों को सुना गया। महोदया द्वारा शिकायतों के त्वरित निस्तारण हेतु सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

(2). आज दिनांक-22.03.2023 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदया श्रीमती वृन्दा शुक्ला के निर्देशन में शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु, क्षेत्राधिकारीगण के नेतृत्व में थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओं एवं क्षेत्रीय नागरिकों से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी।

(3). आज दिनांक 22.03.2023 को पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद चित्रकूट श्रीमती वृन्दा शुक्ला के कुशल निर्देशन में महिलाओं एवं बालिकाओं में सुरक्षा एवं विश्वास का वातावरण बनाये रखने के उद्देश्य से चलाये जा रहे अभियान “मिशन शक्ति” के तहत जनपद के विभिन्न थानों की एण्टी रोमियो टीमों ने विभिन्न मन्दिरों, बाजार, स्कूलों, बस स्टैण्ड, ग्रामों इत्यादि स्थानों पर भ्रमण कर चेकिंग की गयी एवं छात्राओं/महिलाओं को उनके सुरक्षार्थ व सहायता हेतु शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों जैसे:- 1090-वीमेन पॉवर लाइन, 181-महिला हेल्प लाइन, 108-एम्बुलेंस सेवा, 1076-मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112-पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098-चाइल्ड लाइन, 102-स्वास्थ्य सेवा तथा थानों पर स्थापित महिला हेल्प डेस्क के बारे में विस्तार से जानकारी देकर उन्हें जागरूक किया गया तथा महिलाओं/बालिकाओं को जागरूकता पम्पलेट्स वितरित किये गए एवं सार्वजनिक स्थानों एवं चस्पा किये गए।

(4). आज दिनांक-22.03.2023 को पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद चित्रकूट श्रीमती वृन्दा शुक्ला के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी एवं पुलिस उपाधीक्षक एलआईयू श्री अनुज मिश्र के पर्यवेक्षण में, एस चेक टीम डॉग स्क्वायड बांदा एवं एलआईयू चित्रकूट की संयुक्त टीम द्वारा चैत्र मास अमावस्या मेले के दृष्टिगत रामघाट, परिक्रमा मार्ग, बस स्टेशन परिसर आदि स्थानों पर सघन चेकिंग की गई।

(5). आज दिनांक-22.03.2023 को पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद चित्रकूट श्रीमती वृन्दा शुक्ला के निर्देशन में थानाध्यक्ष भरतकूप श्री सूबेदार बिंदु द्वारा थाना क्षेत्र के ग्राम प्रहरियों (चौकीदारों) को एक-एक

नई साइकिल वितरित की गयी। जिसमें थाना क्षेत्र के ग्राम वीरामाफी, पतौड़ा, सिलखोरी, भरथौल, दुगवा, भवानीपुर, लुक, गोड़ा के ग्राम प्रहरी रहे।

(6). आज दिनांक-22.03.2023 को पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद चित्रकूट श्रीमती वृन्दा शुक्ला के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी मऊ श्री राज कमल द्वारा थानाध्यक्ष मारकुण्डी श्री अनिल कुमार की उपस्थिति में थाना क्षेत्र के ग्राम प्रहरियों (चौकीदारों) को एक-एक नई साइकिल वितरित की गयी। साइकिल वितरण में थाना मारकुण्डी क्षेत्र के ग्राम डोडामाफी, कुशमुही, बम्बिया, किहुनियां, मुटवन एवं बड़ी पाटिन के ग्राम प्रहरी रहे।

(7). आज दिनांक-22.03.2023 को क्षेत्राधिकारी मऊ श्री राज कमल द्वारा थाना मारकुण्डी का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। महोदय द्वारा थाना कार्यालय में रजिस्ट्रों का अवलोकन कर अद्यावधिक करने हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए एवं महिला हेल्प डेस्क में आगन्तुक रजिस्टर का अवलोकन कर डियूटी में नियुक्त महिला आरक्षी को आवश्यक निर्देश दिए। महोदय द्वारा थाना कार्यालय, बैरिक, भोजनालय एवं परिसर का निरीक्षण कर साफ सफाई बनाये रखने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

तत्पश्चात महोदय द्वारा थाना मारकुण्डी के विवेचकों का अर्दली रुम किया गया। अर्दली रुम में विवेचकों से लम्बित विवेचनाओं के सम्बन्ध में विस्तृत रूप से वार्ता करते हुये, विवेचना के लम्बित रखने का कारण पूंछा गया तथा लम्बित विवेचनाओं को गुण-दोष के आधार पर शीघ्र निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया गया।

इस दौरान थानाध्यक्ष मारकुण्डी अनिल कुमार तथा थाना मारकुण्डी के अन्य विवेचकगण उपस्थित रहे।